

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 246] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 24, 1982/भाद्र 2, 1904
NO. 246] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 24, 1982/BHADRA 2, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(पेट्रोलियम विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1982

सा० का० लि० 535(अ):—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैराफिन मोम (पूति, संवितरण एवं मूल्य निर्धारण) आदेश 1972 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करता है, अर्थात् .

1. (1) इस आदेश को पैराफिन मोम (पूति, संवितरण एवं मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश 1982 कहा जायेगा ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ।

2. पैराफिन मोम (पूति, सजितरण और मूल्य निश्चरण) अधिनियम, 1972 के साथ सलग अनुसूची "क" को निम्नलिखित अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् --

"अनुसूची 'क'"

[धारा 2 (च) देखें]

पैराफिन मोम का किस्म	आई. एस. आई. विशिष्ट संख्या	त्रिबोर्ड, कलकत्ता, मद्रास, कोच्चन और बम्बई के वितरण कम्पनियों के सप्लायरों केन्द्र पर प्रति मी. टन रुपये
(i) पी. आई. ग्रेड	आई. एस.-4654-1974/टाईप-1	7900
(ii) प्रथम क्वालिटी	आई. एस.-4654-1974/टाईप-2	7800
(iii) मैच क्वालिटी	आई. एस.-4654-1974/टाईप-3	7850"

[फा० सं० पी-11021/2/79-सप्ताह]

आर० वासुदेवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS
(Department of Petroleum)

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1982

G.S.R. 535 (E):—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Paraffin Wax (Supply, Distribution and Price Fixation) Order, 1972, namely:—

1. (1) This Order may be called the Paraffin Wax (Supply, Distribution and Price Fixation) Amendment Order, 1982.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. For Schedule 'A' appended to the Paraffin Wax (Supply, distribution and Price Fixation Order, 1972 the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE 'A'

[See Clause 2 (f)]

Kinds of Paraffin Wax	I.S.I. specification No.	Rupees per metric tonne ex-the Distributing Companies Storage points at Diggai, Calcutta, Madras, Cochin and Bombay.
(i) P. I. Grade	IS-4654-1974/Type 1	7900
(ii) First Quality	IS-4654-1974/Type 2	7800
(iii) Match Quality	IS-4654-1974/Type 3	7850"

[File No. P-11021/2/79 SUP]

R. VASUDEVAN Jt. Secy.